



# भारत का राजपत्र The Gazette of India साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 17, 2003 (वैशाख 27, 1925)

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17, 2003 (VAISAKHA 27, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. ए-38014/12/2002-प्रशा.-2---संघ लोक सेवा आयोग में कार्यरत श्रीमती शरनजीत कौर बीन्दरा, अधीक्षक (डी.पी.), सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30.04.2003 (म.) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रही हैं।

एम. निर्मला राव  
अवर सचिव

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 अप्रैल 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/01678/3/38/98-प्रशा.5---राष्ट्रपति ने श्री वैभव अगासी द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद से दिए गए दिनांक 02.12.2002 के त्यागपत्र को 17.04.2003 (अपराह्न) से स्वीकार कर लिया है।

एस. डी. बैजल  
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 मई 2003

सं. ए-38014/13/2002-प्रशा.-2---संघ लोक सेवा आयोग में कार्यरत श्रीमती कौशल्या बदलानी, सहायक नियंत्रक (डी.पी.), सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30.04.2003 (म.) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रही हैं।

एम. निर्मला राव  
अवर सचिव

सं. डीपी/एडी.5/2003/1737/3/4/85-प्रशा.5---राष्ट्रपति ने श्री ब्रज मोहन प्रसाद सिंह, वरिष्ठ लोक अभियोजक, के. अ. ब्यूरो के 31.03.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक के. अ. ब्यूरो में उप विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

एस. एस. गुल्ल  
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

## गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. ई-16015(2)/1/2002/कार्मिक-1/20--राष्ट्रपति, श्री के. वी. के. श्रीराम, सहायक कमान्डेन्ट को पदोन्नति पर के.ओ.सुब में उप-कमान्डेन्ट के पद पर 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। वे के.ओ.सुब, डकाई एस.सी.सी.एल. (सिंगरौनी) ब्रेलमण्डली में तैनात हैं, जहां उन्होंने दिनांक 09.04.2003 के पूर्वाह्न से उप-कमान्डेन्ट के पद का कार्यभार संभाला।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

## भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 2 अप्रैल 2003

सं. प्रशा.-1/1038-XXIV/2003-2004/02--महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल ने श्री रवीन्द्र नाथ सामन्त, सहायक लेखा अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 7,500-250-12,000/- रुपये के वेतनमान में लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

श्री सामन्त, लेखा अधिकारी के रूप में प्रोन्नति होने पर वेतन निर्धारण हेतु, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक महीने के अन्दर एफ.आर.-22(1)(क)(i) के अधीन अपना विकल्प दे सकते हैं।

उनका तैनाती आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

(प्राधिकार : महालेखाकार का दिनांक 02.04.2003 का आदेश।)

यू. एस. प्रसाद  
उप-महालेखाकार (प्रशासन)

## लघु उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. ए-19018/650/82-प्रशा. (राज.)--सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री सुभाष चन्द्र, सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (धातुकर्म) लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली दिनांक 31.3.2003 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै  
उप-निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 29 अप्रैल 2003

सं. ए-19018/1475/97-प्रशा. (राज.)--सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती सी. के. सुशीला, सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, तृशूर दिनांक 31.3.2003 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गई हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै  
उप-निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1651/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, हैदराबाद में लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी (औद्योगिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण), श्री बी. पकियाराजन को लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा संस्थान, मडगांव (गोवा) में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (औद्योगिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 27.3.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै  
उप-निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 2 मई 2003

सं. ए-19018/1653/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, कोलकाता में लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी (यांत्रिकी), श्री बीरेन्द्र नाथ मण्डल को लघु उद्योग विकास संगठन अन्तर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा संस्थान, गंगटोक में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (यांत्रिकी) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 17.3.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै  
उप-निदेशक (प्रशा.)

## वाणिज्य विभाग

(पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मई 2003

सं. ए-19011/177/96-प्रशा.-6--राष्ट्रपति, सहर्ष भारतीय निरीक्षण सेवा (ग्रुप ए) के कनिष्ठ समयमान के अधिकारी श्री वी. के. मेहरा, सहायक निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन (ग्रेड-I) (वस्त्र) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (मुख्यालय), नई दिल्ली से दिनांक 30.04.2003 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

जीवन दास  
उप-निदेशक (प्रशासन)  
कृते महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
(महासर्वेक्षक का कार्यालय)

देहरादून-248001, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. सी.-161/1800(1)--निम्नलिखित ग्रुप 'सी' मानचित्रकार डिवीजन-1 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि से नियमित आधार पर मुख्य मानचित्रकार ग्रुप 'बी' (राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय) के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में पदोन्नति की जाती है :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री आर. एम. डोभाल	08.04.2003

डॉ. पी. नाग  
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी.-168/725-स्टेनो (1)--निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड-1 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निजी सचिव (ग्रुप 'बी') के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री आर. के. श्रीवास्तव	07.04.2003

डॉ. पी. नाग  
भारत के महासर्वेक्षक

कृषि मंत्रालय  
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

एन. एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 23 अप्रैल 2003

सं. ए-19025/29/80-प्र.-1--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप-कार्यालय, अमृतसर के श्री बी. एल. माथुर, विपणन अधिकारी दिनांक 28.2.2003 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डी. के. बजाज  
निदेशक, प्रशासन

दिनांक 24 अप्रैल 2003

सं. ए-19025/46/81-प्र.-1--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप-कार्यालय, कानपुर के श्री आर. के. वर्मा, विपणन अधिकारी दिनांक 31.3.2003 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डी. के. बजाज  
निदेशक, प्रशासन

दिनांक 29 अप्रैल 2003

सं. ए-19025/46/80-प्र.-1--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप-कार्यालय, अहमदाबाद के श्री एच. सी. वत्सल, विपणन अधिकारी (ग्रुप-1) दिनांक 31.3.2003 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डी. के. बजाज  
निदेशक, प्रशासन

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुम्बई-85, दिनांक 29 अप्रैल 2003

सं. पीडी/13(9)(1)/2003-आर-4/403--राष्ट्रपति, डॉ. गौरव मल्होत्रा को वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'सी' (न्यूक्लियर मेडिसिन) के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विकिरण औषध केंद्र में दिनांक 08 अप्रैल, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

अँटोनी हिमा  
नियंत्रक

(कार्मिक प्रभाग)

मुम्बई-85, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. पीडी/12(2)/2002-आर-III/618--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, कुमारी शीला एस., सहायक, भा. प. अ. केंद्र, को दिनांक 03.03.2003 (पूर्वाह्न) से 04.04.2003 (अपराह) तक की अवधि हेतु इसी अनुसंधान केंद्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-) नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन  
उप-स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/12(2)/2002-आर-III--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमती कमला वेंकटरमण, सहायक, भा. प. अ. केंद्र, को दिनांक 03.03.2003 (पूर्वाह्न) से 11.04.2003 (अपराह) तक की अवधि हेतु इसी अनुसंधान केंद्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-) नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन  
उप-स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. 181(2)/2003/ईआर/1210--राष्ट्रपति, श्री देवेन्द्र बी. पिपले को दिनांक 11 फरवरी, 2003 से भावी आदेश होने तक

रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. सुरेन्द्रन  
अवर सचिव

मुम्बई-400001, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. 21/3(1)/2002-सीसीएस/7--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्रीमती रमिता चन्द्रन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000-13,500/-), क्रय और भंडार निदेशालय, मुम्बई को दिनांक 27.02.2003 (अपराह) से भावी आदेश होने तक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई में उप-लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

सं. 21/3(1)/2002-सीसीएस/9--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री पी. विजयचन्द्रन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000-13,500/-), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई को दिनांक 28.02.2003 (पूर्वाह) से भावी आदेश होने तक निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबन्ध निदेशालय, मुम्बई में उप-लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

मुम्बई-400001, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. 21/10(1)/2001-सीसीएस/8--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री पी. विजयचन्द्रन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000-13,500/-), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई को दिनांक 06.01.2003 (पूर्वाह) से दिनांक 27.02.2003 (अपराह) तक की अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी केन्द्र में उप-लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उमा महादेवन  
उप-सचिव

सं. 22/7(1)/2002-सीसीएस/10--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री टी. पी. एन. नायर, सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500-10,500/-), क्रय एवं भंडार निदेशालय, मुम्बई को दिनांक 08.01.2003 (पूर्वाह) से दिनांक 26.03.2003 (अपराह) तक की अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी निदेशालय में प्रशासन अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उमा महादेवन  
उप-सचिव

सं. 20/3(4)/2002-सीसीएस/11--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री जी. वेंकट रमना, प्रशासन अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-), इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपाक्कम को दिनांक 27.03.2003 के पूर्वाह से भावी आदेश होने तक भारी पानी संयंत्र (मनुगुरू) में मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 12,000-16,500/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उमा महादेवन  
उप-सचिव

प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452013, दिनांक 22 अप्रैल 2003

सं. केट/स्था./967/276--भारत के राष्ट्रपति ने श्री सीताराम सोनी, वैज्ञानिक अधिकारी/सी (वेतनमान रु. 8,000-275-10,500/-), प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, इन्दौर को दिनांक 27.2.2003 से सेवा से बर्खास्त किया है।

एस. सी. जैन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

क्रय और भंडार निदेशालय

मुम्बई-400094, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. क्रभंनि/10002/भर्ती/1508--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने सहायक लेखाकार, श्री वसंत वामन नाईक को इसी निदेशालय में दिनांक 23.07.2002 (पूर्वाह) से दिनांक 21.02.2003 (अपराह) तक, रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है।

आर. सुन्दरराजन  
प्रशासनिक अधिकारी-III

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. भापाबो/भ/6/1(63)/2003/352--राष्ट्रपति, डॉ. रैपल गजानन आदिनाथ को दिनांक 01 अप्रैल, 2003 के पूर्वाह से प्रभावी रूप में आगामी आदेशों तक रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में भारी पानी संयंत्र (मनुगुरू) में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी "सी" (चिकित्सा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. जी. सुकुमारन  
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

सं. भापाबो/भ/6/1(63)/2003/353--राष्ट्रपति, डॉ. (श्रीमती) जयंती श्रीवास्तव को दिनांक 07 मार्च, 2003 के पूर्वाह से प्रभावी रूप में आगामी

आदेशों तक रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में भारी पानी संयंत्र (मणुगुरू) में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी "सी" (चिकित्सा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. जी. सुकुमारन  
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

दी जाती है कि मैसर्स एचएफसीएल नाईन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लक्की जोन इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 अप्रैल 2003

सं. 560(3)/55/89731/1880--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लक्की जोन इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. के. व्हीकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 अप्रैल 2003

सं. 560(3)/55/92541/1917--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस. के. व्हीकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के. मोहन शक्ति इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 अप्रैल 2003

सं. 560(3)/55/17569/1884--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स के. मोहन शक्ति इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कन्शाईन केपफिन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 अप्रैल 2003

सं. 560(3)/55/70785/1920--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कन्शाईन केपफिन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एचएफसीएल नाईन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 अप्रैल 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/68139/1905--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स समीक्षा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 2 मई 2003

सं. 560(5)/24740--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि



मैसर्स कस्तूरी कोलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पंजाब प्रिन्टर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/3856--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रिन्टर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भटिंडा राईस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/4138--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स भटिंडा राईस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोडेस्टो पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. 560(5)/7202--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

मैसर्स मोडेस्टो पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस.आर. एक्स्टस-पैक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. 560(5)/7311--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस.आर. एक्स्टस-पैक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए.पी. इलैक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. 560(5)/7986--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए.पी. इलैक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्यास ट्रान्सपोर्ट को. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. 560(5)/20547--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्यास ट्रान्सपोर्ट को. प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रामीण एजुकेशन डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. 560(5)/21223--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्रामीण एजुकेशन डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए.एम. सोक्टइक्सपो लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. 560(5)/21479--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए.एम. सोक्टइक्सपो लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. एस. स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. 560(5)/21928--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स जी. एस. स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मार्कीटवेव डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. 560(5)/22365--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

मैसर्स मार्कीटवेव डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टैक्नो टेले सॉल्यूशन्स लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. 560(5)/23116--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स टैक्नो टेले सॉल्यूशन्स लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हलीना प्रोसेसर्स लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. 560(5)/23313--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स हलीना प्रोसेसर्स लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्फोकॉम टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. 560(5)/23563--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि



मैसर्स इन्फोकॉम टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

मैसर्स रूबल मल्टी लेवल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सूर्या हाईवेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. 560(5)/24063--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सूर्या हाईवेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पंजाब खालसा हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 6 मई 2003

सं. 560(5)/6329--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स पंजाब खालसा हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आरपीजे कैपिटल कन्सल्टेन्सी लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. 560(5)/24182--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स आरपीजे कैपिटल कन्सल्टेन्सी लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सीमा फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. एल.सी./560(3)/3987--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सीमा फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रूबल मल्टी लेवल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 मई 2003

सं. 560(5)/25469--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

2—66 GI/2003

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स धुलरी मोटर एण्ड जनरल फाइनेन्स (प्राईवेट) लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. एल.सी./560(3)/9488--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की

तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स धुलरी मोटर एण्ड जनरल फाइनेन्स (प्राइवेट) लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भार्गवा क्रोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. एल.सी./560(3)/23304--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स भार्गवा क्रोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राना राइस मिल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. एल.सी./560(3)/4466--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स राना राइस मिल्स लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अविनाश एण्ड एसोसिएट्स (सर्वेयर्स) प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. एल.सी./560(3)/11991--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अविनाश एण्ड

एसोसिएट्स (सर्वेयर्स) प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शामली कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. एल.सी./560(3)/24523--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स शामली कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवराज फूड्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. एल.सी./560(3)/23451--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स शिवराज फूड्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तालन मिनरल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. एल.सी./560(3)/23852--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स तालन मिनरल्स

(इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मानकेशव फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. एल.सी./560(3)/16027--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मानकेशव फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कटनी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 1 मई 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/एस.टी.ए./धारा 560(3)/12635/300--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स कटनी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सतपुड़ा ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 1 मई 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/एस.टी.ए./धारा 560(3)/12505/303--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा

सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स सतपुड़ा ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. एम. पैको ग्राफ्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 2 मई 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/10179/धारा 560(3)/339--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स एम. एम. पैको ग्राफ्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चन्द्र प्रभा सैनटैक्स लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 2 मई 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/एस.टी.ए./धारा 560(3)/354--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स चन्द्र प्रभा सैनटैक्स लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मंगलम प्रिन्टेक्स एण्ड पब्लिशर्स (प्राईवेट) लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 2 मई 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/धारा 560(5)/357--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

सं. आर.ओ.सी.-जी/धारा 560(5)/371--कम्पनी अधिनियम, 1956  
की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सचना

दी जाती है कि मैसर्स अयोध्या सौर्य ऊर्जा इन्जीनियरिंग (प्राईवेट) लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

नौबत सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. एस. पी. एल. फाइनेन्स लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 2 मई 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/धारा 560(5)/373--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए. एस. पी. एल. फाइनेन्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

नौबत सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मंगलम फार्मास्युटिकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 2 मई 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/धारा 560(5)/375--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मंगलम फार्मास्युटिकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

नौबत सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अंकित प्रोटीन (प्राईवेट) लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 2 मई 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी/धारा 560(5)/377--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अंकित प्रोटीन (प्राईवेट) लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

नौबत सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डॉक्टर पारवती मेमोरियल मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बंगलूर-34, दिनांक 2 मई 2003

सं. कं.सं./560/3/एस.सं./97-98--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अंदर उचित कारण न बताया गया तो मैसर्स डॉक्टर पारवती मेमोरियल मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उस दिन से कम्पनी विघटित सम्झी जाएगी।

बी. ए. एम. पी. रत्नसामी  
कम्पनियों के उप रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनी के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. आर.ओ.सी./टी.एस./560/6554/240--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनी विघटित हो गई है :--

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
01.	15-06554	मैसर्स सिमेराइन एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड।

आलोक सामन्तराय  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनी के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. आर.ओ.सी./टी.एस./560/2166/241--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनी विघटित हो गई है :--

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
01.	15-02166	मैसर्स कमुल्लड़ (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड।

आलोक सामन्तराय  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनी  
के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. आर.ओ.सी./टी.एस./560/3928/242--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनी विघटित हो गई है :--

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
01.	15-03928	मैसर्स ओरिएण्टल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड

आलोक सामन्तराय  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनी  
के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. आर.ओ.सी./टी.एस./560/3992/243--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनी विघटित हो गई है :--

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
01.	15-03992	मैसर्स डिजाईनर्स डोन प्राईवेट लिमिटेड।

आलोक सामन्तराय  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनी  
के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. आर.ओ.सी./टी.एस./560/5566/244--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनी विघटित हो गई है :--

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
01.	15-05566	मैसर्स श्रीराम फारेक्स इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड।

आलोक सामन्तराय  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनी  
के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं. आर.ओ.सी./टी.एस./560/1769/245--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनी विघटित हो गई है :--

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
01.	15-01769	मैसर्स मीडिया मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड।

आलोक सामन्तराय  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ईस्ट एन्ड ऑटो केयर प्राईवेट  
लिमिटेड के विषय में।

शिलांग, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. टी.ए./3704/560(5)/370--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ईस्ट एन्ड ऑटो केयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी लुप्त हो गई है।

डी. बन्दोपाध्याय  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,  
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोव्वेल ऑर्गेनिक प्राईवेट  
लिमिटेड के विषय में।

शिलांग, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. टी.ए./3057/560(5)/379--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोव्वेल ऑर्गेनिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी लुप्त हो गई है।

डी. बन्दोपाध्याय  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,  
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अल कुरा मेडिकल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. टी.ए./3614/560(5)/383--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स अल कुरा मेडिकल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी लुप्त हो गई है।

डी. बन्दोपाध्याय  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,  
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मनिका इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. टी.ए./2741/560(5)/387--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स मनिका इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी लुप्त हो गई है।

डी. बन्दोपाध्याय  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,  
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. टी.ए./4319/560(5)/391--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी लुप्त हो गई है।

डी. बन्दोपाध्याय  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,  
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नार्थ ईस्ट वाटर रिसोर्स कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. टी.ए./3521/560(5)/394--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

मैसर्स नार्थ ईस्ट वाटर रिसोर्स कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी लुप्त हो गई है।

डी. बन्दोपाध्याय  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,  
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नामदां भेनाट सा इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. टी.ए./1985/560(5)/398--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स नामदां भेनाट सा इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी लुप्त हो गई है।

डी. बन्दोपाध्याय  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,  
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रह्मपुत्र सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. टी.ए./2610/560(5)/401--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्रह्मपुत्र सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी लुप्त हो गई है।

डी. बन्दोपाध्याय  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,  
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लुहीत फाइनान्शियल मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. टी.ए./3120/560(5)/406--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

मैसर्स लुहीत फाइनांशियल मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी लुप्त हो गई है।

डी. बन्दोपाध्याय  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,  
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कामरेशि वुड प्रोडक्ट्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. टी.ए./3441/560(5)/410--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कामरेशि वुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी लुप्त हो गई है।

डी. बन्दोपाध्याय  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,  
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लध होटल्स एण्ड ब्रिक  
फिल्टर्स लिमिटेड के विषय में।

शिलांग, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. टी.ए./2524/560(5)/414--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स लध होटल्स एण्ड ब्रिक फिल्टर्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी लुप्त हो गई है।

डी. बन्दोपाध्याय  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,  
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उखा फारेस्ट प्रोडक्ट्स  
लिमिटेड के विषय में।

शिलांग, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. टी.ए./2524/560(5)/417--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स उखा फारेस्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी लुप्त हो गई है।

डी. बन्दोपाध्याय  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,  
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कामरूप कार्बन प्राईवेट  
लिमिटेड के विषय में।

शिलांग, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. टी.ए./5013/560(5)/420--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कामरूप कार्बन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी लुप्त हो गई है।

डी. बन्दोपाध्याय  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,  
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओसकन प्राईवेट लिमिटेड  
के विषय में।

शिलांग, दिनांक 30 अप्रैल 2003

सं. टी.ए./2266/560(5)/424--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओसकन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी लुप्त हो गई है।

डी. बन्दोपाध्याय  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,  
मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश



## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 30th April 2003

No. A-38014/12/2002-Admn.II.—Consequent upon her attaining the age of superannuation Mrs. Sharaniit Kaur Bindra, Supdt. (DP) in the office of the Union Public Service Commission, has retired from Government service with effect from 30-04-2003 (A/N).

M. NIRMALA RAO  
Under Secretary (Admn.)

No. A-38014/13/2002-Admn.II.—Consequent upon her attaining the age of superannuation Mrs. Kaushalya Badleni, Asstt. Controller (DP) in the office of the Union Public Service Commission, has retired from Government service with effect from 30-04-2003 (A/N).

M. NIRMALA RAO  
Under Secretary (Admn.)

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 24th April 2003

No. DPAD5/2003/01678/3/38/98-AD.V.—The President is pleased to accept the resignation dated 2-12-2002 submitted by Shri Vaibhav Agashe from the post of Deputy Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation w.e.f. 17-4-2003 (A/N).

S. D. BAJAJ  
Admn. Officer (Estt.)

New Delhi-110003, the 1st May 2003

No. DPAD5/2003/1737/3/4/85-AD.V.—The President is pleased to appoint Sh. Brij Mohan Prasad Singh, Sr. PP, CBI as Dy Legal Adviser in the CBI with effect from the forenoon of 31-3-2003 and until further orders.

S. S. GULIA  
Administrative Officer (Estt.)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi-03, the 30th April 2003

No. E-16015 (21/1/2002/Pers.I/20.—The President is pleased to appoint Shri K. V. K. Sriram, Assistant Commandant to the rank of Deputy Commandant in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 10,000-32,500/-. He is posted at CISF Unit SCCL (Singreni) Bellampalli, where he assumed the charge of Deputy Commandant in the Forenoon of 09-04-2003.

Sd. ILLEGIBLE  
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
(OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
WEST BENGAL)

Kolkata-700 001, the 2nd April 2003

No. Admn.I/1038-XXIV/2003-2004 '02.—The Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to appoint Shri Rabindra Nath Samanta, Asstt. Accounts Officer as Accounts Officer in the scale of Rs. 7500-250-12,000/- with effect from the date of taking over his charge.

3-66/GI/2003

Shri samanta on his promotion as Accounts Officer may exercise his option under F.R. 22 I(a) (i) within one month from the date of issue of this order for fixation of pay.

His posting order will be issued separately.

[Authority : A.G.'s order dated 2-4-2003]

B. K. GAYEN  
Sr. Accounts Officer  
(Administration-I)

## MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER

(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, 28th April 2003

No. A-19018/650/82-Admn(G).—On attaining the age of superannuation, Shri Subhash Chander, Assistant Director (Grade I) (Metallurgy), Small Industries Service Institute, New Delhi under Small Industry Development Organisation retired from Government service on the afternoon of 31-3-2003.

S. V. N. PILLAI  
Dy. Director (Admn.)

The 29th April 2003

No. A-19018/1475/97-Admn(G).—On attaining the age of superannuation, Smt. C. K. Suseela, Assistant Director (Grade-II) (General Administrative Division), Small Industries Service Institute, Thrissur under Small Industry Development Organisation retired from Government service on the afternoon of 31-3-2003.

S. V. N. PILLAI  
Dy. Director (Admn.)

No. A-19018/1651/2003-Admn(G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri B. Packiarajan, Small Industry Promotion Officer (Industrial Management and Training), Small Industries Service Institute, Hyderabad as Assistant Director (Grade-II) (Industrial Management and Training) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- in Small Industries Service Institute, Margao (Goa) with effect from the forenoon of 27-3-2003 until further orders.

S. V. N. PILLAI  
Dy. Director (Admn.)

The 2nd May 2003

No. A-19018/1653/2003-Admn(G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri Birendra Nath Mondal, Small Industry Promotion Officer (Mechanical), Small Industries Service Institute, Kolkata as Assistant Director (Grade-II) (Mechanical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- in Small Industries Service Institute, Gangtok with effect from the forenoon of 17-3-2003 until further orders.

S. V. N. PILLAI  
Dy. Director (Admn.)

(DEPARTMENT OF COMMERCE)  
(DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS)

New Delhi-110001, the 1st May 2003

No. A-19011/177/96/A-6.—The President is pleased to allow Shri V. K. Mehra, Assistant Director (QA) (Grade I) (Textile) and an officer in Junior Time Scale of the Indian Inspection Service (Group A) in the cadre of Directorate

General of Supplies & Disposals, who was posted in Head-quarter, New Delhi, to retire from Government Service on attaining the age of superannuation w.e.f. the afternoon of 30th April, 2003.

JIWAN DASS  
Dy. Director (Admn.)  
for Director General of Supplies & Disposals

**SURVEY OF INDIA  
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE**

Dehradun-248001, the 28th April 2003

No. C-161/1800(1).—The undermentioned Group 'C' Draftsman Division-I is promoted as Chief Draftsman, Group 'B' Post (Gazetted, Non-Ministrial), in Survey of India on regular basis in the Scale of Pay Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date as shown against his name :—

S. No., Name & Date of Promotion

1. Shri R. M. Dobhal—08-04-2003.

Dr. P. NAG  
Surveyor General of India

No. C-168/725-Steno(1).—The undermentioned Stenographer Grade-I is hereby promoted to the post of Private Secretary (Group 'B') in Survey of India in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date as shown against his name :—

S. No., Name & Designation & Date of Promotion

1. Shri R. K. Srivastava—07-04-2003.

Dr. P. NAG  
Surveyor General of India

**MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPTT. OF AGRICULTURE & COOP.)  
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION**

NH-IV, Faridabad, the 23rd April 2003

No. A-19025/29/80-A. I.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri B. L. Mathur, Marketing Officer in the Directorate of Marketing & Inspection, Sub-office, Amritsar has retired from Government service with effect from 28-2-2003 (Afternoon).

D. K. BAZZAZ  
Director (Admn.)

The 24th April 2003

No. A-19025/46/81-A.I.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri R. K. Verma, Marketing Officer in the Directorate of Marketing & Inspection, Sub-office Kanpur has retired from Government service with effect from 31-3-2003 (Afternoon).

D. K. BAZZAZ  
Director (Admn.)

The 29th April 2003

No. 19025/46/80-A. I.—On his attaining the age of superannuation, Shri H. C. Vatsal, Marketing Officer (Group-I) Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Directorate of Marketing and Inspection, Ahmedabad has retired from Govt. service with effect from 31-3-2003 (A/N).

D. K. BAZZAZ  
Director (Admn.)

**BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE**

Bombay-85, the 29th April 2003

No. PD/13(9)(1)/2003-R.IV/403.—The President is pleased to appoint D. Gaurav Mathotra as Scientific Officer 'C' (Nuclear Medicine) in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- in Radiaton Medicine Centre of the Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity w.e.f. April 08, 2003 (F/N) until further orders.

ANTHONY DE SA. Controller

(PERSONNEL DIVISION)

Mumbai-400 085, the 30th April 2003

No. PD/12(2)/2002-R III/618.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Kum. Sheela S. Assistant, BARC as Asstt. Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-1000/- with effect from 3-3-2003 (F/N) to 4-4-2003 (A/N).

K. C. DIVAKARAN  
Dy. Establishment Officer

No. PD/12(2)/2002-R-III/619.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Kamala Venkataraman, Assistant, RPAD, BARC as Asstt. Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 3-3-2003 (F/N) to 11-4-2003 (A/N).

K. C. DIVAKARAN  
Dy. Establishment Officer

(DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY)

Mumbai-400 001, the 28th April 2003

No. 18/1(2)/2003-ER/1210.—The President is pleased to appoint Shri Devendra V. Pimpale as Scientific Officer (C) in the Atomic Energy Regulatory Board in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the forenoon of February 11, 2003 until further orders.

D. SUENDRAN, Under Secy.

Mumbai-400 001, the 30th April 2003

No. 21/3(1)/2002-CCS/7.—The President is pleased to appoint Smt. Meena Chandran, Sr. Accounts Officer (Scale of pay Rs. 8000—13500/-), Directorate of Purchase & Stores Mumbai of this Department as Dy. Controller of Accounts (Scale of pay Rs. 10000—15200/-) in the Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai w.e.f. the afternoon of 27-2-2003 or until further orders.

SOBHA DEVI N., Under Secy.

No. 21/3(1)/2002-CCS/9.—The President is pleased to appoint Shri P. Vijaychandran, Sr. Accounts Officer (Scale of pay Rs. 8000—13500/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Dy. Controller of Accounts (Scale of pay Rs. 10000—15200/-) in the Directorate of Construction, Services & Estate Management, Mumbai w.e.f. the forenoon of 28-2-2003 or until further orders.

SOBHA DEVI N., Under Secy.

Mumbai-400 001, the 30th April 2003

No. 21/10(1)/2001-CCS/8.—The President is pleased to appoint Shri P. Vijaychandran, Sr. Accounts Officer (Scale of pay Rs. 8000—13500/-), Bhabha Atomic Research Centre.

Mumbai of this Department as Dy. Controller of Accounts (Scale of pay Rs. 10000—15200/-) in the same Centre on adhoc basis for the period from 6-1-2003 (F/N) to 27-2-2003 (A/N).

UMA MAHADEVAN, Dy. Secy.

No. 22/7(1)/2002-CCS/10.—The President is pleased to appoint Shri T.P.N. Nair, Asstt. Personnel Officer (Scale of pay Rs. 6500—10500/-), Directorate of Purchase & Stores, Mumbai of this Department as Administrative Officer-III (Scale of pay Rs. 10000—15200/-) in the same Directorate on adhoc basis for the period from 8-1-2003 (F/N) to 26-3-2003 (A/N).

UMA MAHADEVAN, Dy. Secy.

No. 20/3(4)/2002-CCS/II.—The President is pleased to appoint Shri G. Venkata Ramana, Administrative Officer (Scale of pay Rs. 10000—15200), Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Chief Administrative & Accounts Officer (Scale of pay Rs. 12000—16500) in the Heavy Water Plant (Manuguru) with effect from the forenoon of 27-03-2003 until further orders.

UMA MAHADEVAN  
Dy. Secy.

#### CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452013, the 22nd April 2003

No. CAT/Estt/967/276.—The President of India dismisses Shri Sitaram Soni, Scientific Officer/C (Scale of pay Rs. 8000-275-10500), Centre for Advanced Technology, Department of Atomic Energy, Indore from service with effect from 27-02-2003.

S. C. JAIN  
Chief Admin. Officer

#### DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 30th April 2003

Ref : DPS/10002/Rectt/1508.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy has appointed Shri Vasant Waman Naik, Assistant Accountant as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on ad-hoc basis in the same Directorate w.e.f. 23-07-2002 (FN) to 21-02-2003 (AN).

R. SUNDARAJAN  
Administrative Officer-III

#### HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 30th April 2003

Ref : HWB/R/6/1(63)/2003/352.—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Jayanthi Srivastav as Scientific Officer/C (Medical) in Heavy Water Plant (Manuguru) in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 with effect from the forenoon of April 1, 2003 in a temporary capacity until further orders.

C. G. SUKUMARAN  
Dir. (Personnel & Administration)

Ref : HWB/R/6/1(63)/2003/353.—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Jayanthi Srivastav as Scientific Officer/C (Medical) in Heavy Water Plant (Manuguru) in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 with effect from the forenoon of March 07, 2003 in a temporary capacity until further orders.

C. G. SUKUMARAN  
Dr. (Personnel & Administration)

#### MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

O/o THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lucky Zone Impex Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 22nd April 2003

No. u/s./560(3)/55/89731/1880—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lucky Zone Impex Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. Mohan Shakti Investments Ltd.

New Delhi-110003, the 22nd April 2003

No. us. 560(3)/55/017569/1884—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. K. Mohan Shakti Investments Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. HPCL Mine Entertainment Ltd.

New Delhi-110003, the 24th April 2003

No. FTS/560 (5)/55/68139/1905—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. HPCL Mine Entertainment Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S.K. Vehicels Pvt. Ltd.

New Delhi-110003, the 24th April 2003

No. u/s. 560(3)/55/92541/1917—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. S. K. Vehicles Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sunshine Capton Services Ltd.

New Delhi-110003, the 24th April 2003

No. u/s. 560 (3)/55/70785/1920—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Sunshine Capton Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI  
Asstr. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Samixa Builders Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 2nd May 2003

No. ROC/560(5)/24740/963—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Samixa Builders Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashwa Tradelinks Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 2nd May 2003

No. ROC/560(5)/24741/962—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s.

Ashwa Tradelinks Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Virat Plastotrader Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 2nd May 2003

No. ROC/560(5)/24742/960—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Virat Plastotrader Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kanika Trading and Allied Services Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 2nd May 2003

No. ROC/560(5)/24747/959—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kanika Trading and Services Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kanika Colonizers Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 2nd May 2003

No. ROC/560(5)/24743/—965—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 the name of M/s Kanika Colonizers Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Virat Colonizers Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 2nd May 2003

No. ROC/560(5)/24744/961—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Virat Colonizers Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vidhu Constructions Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 2nd May 2003

No. ROC/560(5)/24748/958—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vidhu Constructions Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kasturi Colonizers Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 2nd May 2003

No. ROC/560(5)/24749/964—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kasturi Colonizers Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Punjab Printers & Traders Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560(3)/3858/799—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Punjab Printers & Traders Pvt. Ltd. unless

cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhatinda Rice Mills Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560(3)/4138/818—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Bhatinda Rice Mills Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Modesto Packagings Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560(5)/7202/808—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Modesto Packagings Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Essar Extru-Packs Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560(5)/7311/811—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Essar Extru-Packs Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. P. Electrodes Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560(5)/7986/806—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. P. Electrodes Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Beas Transport Co. Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560(5)/20547/814—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Beas Transport Co. Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gremin Educational Development Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560(5)/21223/816—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gremin Educational Development Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. M. Softexpo Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560(5)/21479/817—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s.

A. M. S. ftexpo Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. G.S. Spinners Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560(5)/21928/812—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. G.S. Spinners Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Market Wave Distributors Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560 (5)/22365/807—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Market Wave Distributors Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Techno Tele Solutions Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560(5)/23116/810—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Techno Tele Solutions Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Haleena Processors Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560 (5)/23313/815—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Haleena Processors Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Infocom Technologies Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560(5)/23563/805—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Infocom Technologies Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Surya Highways Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560 (5)/24067/803—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Surya Highways Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. RPJ Capital Consultancy Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560 (5) /24182 / 813—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. RPJ Capital Consultancy Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rooble Multi Level Marketing Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 5th May 2003

No. ROC/560 (5)/25469/809—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rooble Multi Level Marketing Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Punjab Khalsa Hire Purchase Pvt. Ltd.

Jalandhar, the 6th May 2003

No. ROC/560 (5)/6329/804—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Punjab Khalsa Hire Purchase Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Seema Finance Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 28th April 2003

No. 560 (3)/LC/3987/4554—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Seema Finance Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dhoulri Motor & General Finance (P) Ltd.

Kanpur-208001, the 28th April 2003

No. 560 (3)/LC/9488/4556—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Dhoulri Motor & General Finance (P) Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhargava Ceramics Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 28th April 2003

No. 560 (3)/LC/8193/4558—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Bhargava Ceramics Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies,  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rana Rice Mills Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 28th April 2003

No. 560 (3)/LC/4465/4560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Rana Rice Mills Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Avinash & Associates (Surveyors)  
Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 28th April 2003

No. 560 (3)/LC/11991/4562—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the

expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Avinash & Associates (Surveyors) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shamli Cold Storage Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 28th April 2003

No. 560(3)/LC/24523/4564—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shamli Cold Storage Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shivraj Food Products Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 28th April 2003

No. 560(3)/LC/23451/4566—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shivraj Food Products Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Minerals (India) Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 28th April 2003

No. 560(3)/LC/23852/4568—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Minerals (India) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mankesh Finance & Investment Co. Ltd.

Kanpur-208001, the 28th April 2003

No. 560(3)/LC/16027/4570—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mankesh Finance & Investment Co. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI  
Asstt. Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Katni Software Pvt. Ltd.

Gwalior-474009, the 1st May 2003

No. ROC-G/STA/Sec. 560(3)/12635/300—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Katni Software Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
M. P. & Chhattisgarh,

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Satpura Green Forest Ltd.

Gwalior-474009, the 1st May 2003

No. ROC-G/STA/Sec.560(3)/12505/303—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Satpura Green Forest Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. M. Packo Grophs Pvt. Ltd.

Gwalior-474009, the 2nd May 2003

No. ROC-G/10179/Sec.560(3)/339—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s.

4—66 GI/2003

M. M. Packo Grophs Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chanira Prabha Syntex Ltd.

Gwalior-474009, the 22nd April 2003

No. ROC-G/Sec.560(3)/2002/146—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Chanira Prabha Syntex Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mangalum Printer & Publishers (P) Ltd.

Gwalior-474009, the 2nd May 2003

No. ROC-G/u/s-560(5)/357—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mangalum Printer & Publishers (P) Ltd. has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mahir Securities Pvt. Ltd.

Gwalior-474009, the 2nd May 2003

No. ROC-G/u/s-560(5)/359—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mahir Securities Pvt. Ltd. has this day been struck-off from the Register and the said Company is dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ranchers Agro Pvt. Ltd.

Gwalior-474009, the 2nd May 2003

No. ROC-G/u/s-560 (5)/361—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Ranchers Agro Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
M. P. & Chhattisgarh.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A.A. Leasing Pvt. Ltd.

Gwalior-474009, the 2nd May 2003

No. ROC-G/u/s-560(5)/363—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. A. Leasing Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Budkur Investment Pvt. Ltd.

Gwalior-474009, the 2nd May 2003

No. ROC-G/u/s-560(5)/365—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Budkur Investment Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kiddies Fashion Pvt. Ltd.

Gwalior-474009, the 2nd May 2003

No. ROC-G/u/s-560(5)/367—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Kiddies Fashion Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Siddharth Dwellings Pvt. Ltd.

Gwalior-474009, the 2nd May 2003

No. ROC-G/u/s-560(5)/369—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Siddharth Twellings Pvt. Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
M. P. & Chhattisgarh,

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ayodhya Saurya Urja Engg. Pvt. Ltd.

Gwalior-474009, the 2nd May 2003

No. ROC-G/u/s-560(5)/371—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the companies Act, 1956 that the name of M/s. Ayodhya Saurya Urja Engg. Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
M. P. & Chhattisgarh,

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ASPL Finance Ltd.

Gwalior-474009, the 2nd May 2003

No. ROC-G/u/s-560(5)/373—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ASPL Finance Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
M. P. & Chhattisgarh,

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mangalam Pharmaceuticals (P) Ltd.

Gwalior-474009, the 2nd May 2003

No. ROC-G/u/s-560(5)/375—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mangalam Pharmaceuticals (P) Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
M. P. & Chhattisgarh.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ankit Proteins Pvt. Ltd.

Gwalior-474009, the 2nd May 2003

No. ROC-G/u/s-560(5)/377—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ankit Proteins Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

NAUBAT SINGH  
Registrar of Companies  
M. P. & Chhattisgarh.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dr. Parvati Memorial Medicare Pvt. Ltd.

Bangalore-560034, the 2nd May 2003

No. STA/NKR/7957/560(3)/2003-2004—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of M/s. Dr. Parvati Memorial Medicare Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B.A.M.P. RATHNA SAMI  
Dy. Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Seamarine Surveyors Pvt. Ltd.

Cuttack-753001, the 28th April 2003

No. ROC/TS/560/6554/240—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s.

Seamarine Surveyors Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

ALOK SAMANTARAI  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Compuworld (India) Pvt. Ltd.

Cuttack-753001, the 28th April 2003

No. ROC/TS/560/2166/241—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Compuworld (India) Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

ALOK SAMANTARAI  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Oriental Security Services Pvt. Ltd.

Cuttack-753001, the 28th April 2003

No. ROC/TS/560/3928/242—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Oriental Security Services Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

ALOK SAMANTARAI  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Designers Den Pvt. Ltd.

Cuttack-753001, the 28th April 2003

No. ROC/TS/560/3992/243—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Designers Den Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

ALOK SAMANTARAI  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sriram Firex Engineering Pvt. Ltd.

Cuttack-753001, the 28th April 2003

No. ROC/TS/560/5566/244—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sriram Firex Engineering Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

ALOK SAMANTARAI  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Media Marketing Pvt. Ltd.

Cuttack-753001, the 28th April 2003

No. ROC/TS/560/1769/245—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Media Marketing Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

ALOK SAMANTARAI  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. East End Auto Care Pvt. Ltd.

Shillong-793001, the 30th April 2003

No. ROC/TA/3704/560(5)/370—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. East End Auto Care Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Records of this office and the said Company is dissolved.

D. BANDOPADHYAY  
Registrar of Companies  
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,  
Arunachal Pradesh & Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Growwell Organics Pvt. Ltd.

Shillong-793001, the 30th April 2003

No. ROC/TA/3657/560(5)/379—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s.

Growwell Organics Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Records of this office and the said Company is dissolved.

D. BANDOPADHYAY  
Registrar of Companies  
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,  
Arunachal Pradesh & Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. All Cura Medicals Pvt. Ltd.

Shillong, the 30th April 2003

No. ROC/TA/3614/560(5)/383—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and that the name of M/s. All Cura Medicals Pvt. Ltd. has this day been struck off from the records of this Office and the said Company is dissolved.

D. BANDOPADHYAY  
Registrar of Companies  
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,  
Arunachal Pradesh & Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manika Industries Pvt. Ltd.

Shillong, the 30th April 2003

No. ROC/TA/2741/560(5)/387—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and that the name of M/s. Manika Industries Pvt. Ltd. has this day been struck off from the records of this Office and the said Company is dissolved.

D. BANDOPADHYAY  
Registrar of Companies  
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,  
Arunachal Pradesh & Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trak Electronics Pvt. Ltd.

Shillong, the 30th April 2003

No. ROC/TA/4319/560(5)/391—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and that the name of M/s. Trak Electronics Pvt. Ltd. has this day been struck off from the records of this Office and the said Company is dissolved.

D. BANDOPADHYAY  
Registrar of Companies  
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,  
Arunachal Pradesh & Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. North East Water Resources Consultancy  
Services Pvt. Ltd.

Shillong, the 30th April 2003

No. ROC/TA/3521/560(5)-394—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and that the name of M/s. North East Water Resources Consultancy Services Pvt. Ltd. has this day been struck off from the records of this Office and the said Company is dissolved.

D. BANDOPADHYAY  
Registrar of Companies  
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,  
Arunachal Pradesh & Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Namdang Veneer & San Industries Pvt. Ltd.

Shillong, the 30th April 2003

No. ROC/TA/1985/560(5)/398—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and that the name of M/s. Namdang Veneer & San Industries Pvt. Ltd. has this day been struck off from the records of this Office and the said Company is dissolved.

D. BANDOPADHYAY  
Registrar of Companies  
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,  
Arunachal Pradesh & Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Brahmaputra Cements Pvt. Ltd.

Shillong, the 30th April 2003

No. ROC/TA/2610/560(5)/401—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and that the name of M/s. Brahmaputra Cements Pvt. Ltd. has this day been struck off from the records of this Office and the said Company is dissolved.

D. BANDOPADHYAY  
Registrar of Companies  
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,  
Arunachal Pradesh & Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Luit Financial and Management Consultancy  
Services Pvt. Ltd.

Shillong, the 30th April 2003

No. ROC/TA/3120/560(5)/406—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and that the name of M/s. Luit Financial and Management Consultancy

Services Pvt. Ltd. has this day been struck off from the records of this Office and the said Company is dissolved.

D. BANDOPADHYAY  
Registrar of Companies  
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,  
Arunachal Pradesh & Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kamreangishi Wood Products Pvt. Ltd.

Shillong, the 30th April 2003

No. ROC/TA/3441/560(5)/410—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and that the name of M/s. Kamreangishi Wood Products Pvt. Ltd. has this day been struck off from the records of this Office and the said Company is dissolved.

D. BANDOPADHYAY  
Registrar of Companies  
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,  
Arunachal Pradesh & Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lodh Hopel and Brick Fields Pvt. Ltd.

Shillong, the 30th April 2003

No. ROC/TA/2524/560(5)/414—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and that the name of M/s. Lodh Hopel and Brick Fields Pvt. Ltd. has this day been struck off from the records of this Office and the said Company is dissolved.

D. BANDOPADHYAY  
Registrar of Companies  
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,  
Arunachal Pradesh & Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Wokha Forest Products Pvt. Ltd.

Shillong, the 30th April 2003

No. ROC/TA/2990/560(5)/417—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act 1956 and that the name of M/s. Wokha Forest Products Pvt. Ltd. has this day been struck off from the records of this Office and the said Company is dissolved.

D. BANDOPADHYAY  
Registrar of Companies  
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,  
Arunachal Pradesh & Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kamrup Carbon Pvt. Ltd.

Shillong, the 30th April 2003

No. ROC/TA/5013/560(5)/420—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and that the name of M/s. Kamrup Carbon Pvt. Ltd. has this day been struck off from the records of this Office and the said Company is dissolved.

D. BANDOPADHYAY  
Registrar of Companies  
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,  
Arunachal Pradesh & Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Oscan Pvt. Ltd.

Shillong, the 30th April 2003

No. ROC/TA/2266/560(5)/424—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and that the name of M/s. Oscan Pvt. Ltd. has this day been struck off from the records of this Office and the said Company dissolved.

D. BANDOPADHYAY  
Registrar of Companies  
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,  
Arunachal Pradesh & Mizoram